



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1931 (श0)
(सं0 पटना 564) पटना, मंगलवार, 10 नवम्बर 2009

विधि विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर 2009

सं0 ए0नोट-45/91 (पार्ट) 4472जे0—भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली का निम्नांकित नियम (सा0का0नि0 700(अ) दिनांक 24 सितम्बर 2009) सर्व-साधारण की सूचना के लिये, इसके, द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है।

(संचिका सं0-ए0/नोट0-45/91(पार्ट)/4472/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 700(अ)-केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2क कोई व्यक्ति जो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए प्रारूप 2 में आवेदन कर रहा है वह समुचित सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 7क में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2. उक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार द्वारा विधिक कार्य से संबंधित अपने अधिकारियों में से एक या अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा और प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार के संयुक्त सचिव या विधि अधिकारी से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा।”

4. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 2ख में “भारत सरकार का संयुक्त सचिव/सरकार का सचिव
..... (राज्य का नाम)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “भारत सरकार का अपर सचिव/सरकार का सचिव (राज्य का नाम)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा.सं.5(271)/2000-एनसी]

डी.आर. मीना, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172 (अ) तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467 (अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441 (अ) तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008 और सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 24 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2009

G.S.R.700(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"2A. A person applying in Form II for appointment as a notary may submit the memorial direct to the Competent Authority of Appropriate Government."

3. In rule 7A of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"2. For the said purpose, one or more Interview Boards shall be constituted by the appropriate Government from amongst its officers dealing with legal matters and the Chairperson of every Interview Board shall be an officer not below the rank of Joint Secretary or Law Officer of that Government."

4. In FORM IIB appended to the said rules, for the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of (Name of the State)", the words and brackets "Additional Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of (Name of the State)" shall be substituted.

[F.No. 5(271)/2000-NC]

D. R. MEENA, Addl. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000, G.S.R.172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R.330(E) dated the 9th May, 2001, G.S.R.460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 467(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 441(E) dated the 24th July, 2006, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R.86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E) dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51(E) dated the 23rd January, 2008, G.S.R. 636(E) dated the 3rd September, 2008, G.S.R. 764(E) dated the 3rd November, 2008, G.S.R. 114(E) dated the 24th February, 2009.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 564-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>